

मैकोम्ब काउंटी

इमर्जन्सी तैयारी गाइड



कार्यपुस्तिका और दिशानिर्देश

इमर्जन्सी मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन्स • (586) 469-5270 • mcoem.macombgov.org



विषयसूची

मैकोम्ब काउंटी कार्यकारी से संदेश.....	4
इमर्जन्सी मैनेजमेंट का परिचय.....	5
पारिवारिक तैयारी प्रश्नावली.....	7
घर के खतरों का परिक्षण.....	8
तैयार करने के लिए आप क्या कर सकते हैं.....	11
एक इमर्जन्सी सप्लाइज किट तैयार करें.....	13
आपके घर के लिए एक निकासी किट.....	14
आपके वाहन के लिए एक आपदा किट.....	15
इमर्जन्सी कम्युनिकेशन योजना.....	16
इमर्जन्सी फोन संपर्क.....	17
इमर्जन्सी फोन नंबर.....	18
बेबीसीटर की जानकारी.....	19
आउटडोर चेतावनी प्रणाली.....	21
निकासी और आश्रय की जगह.....	23
जब इमर्जन्सी आ जाती है.....	25
तैयार रहे! पानी की बाढ़.....	27
एक आपदा/इमर्जन्सी से उभारना.....	28
आतंकवाद.....	31
आतंकवाद के 8 लक्षण.....	32
आतंकवादी हमले से बचाव की तैयारी.....	33
सक्रिय हमलावर.....	35
9-1-1 पर कॉल करना.....	37



काउंटी कार्यकारी का संदेश



प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं की तैयारी में मैकोम्ब काउंटी में रहने और काम करने वालों की सहायता करने के लिए मैं इस सामुदायिक इमर्जन्सी तैयारी कार्यपुस्तिका को प्रस्तुत करके में बहुत प्रसन्न हूँ। जब कोई इमर्जन्सी हो तब एक योजना होने से प्रभावित लोगों को सुरक्षित और प्रभावी तरीके से प्रतिक्रिया करने में मदद मिलती है। किसी आपात स्थिति से पहले की योजना बनाना एक मजबूत समुदाय का निर्माण करता है और हमारे समर्पित इमर्जन्सी सेवा कर्मियों को यह जानते हुए कि वे जिन समुदायों की सेवा करते हैं वे सहायता के लिए तैयार हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करने की अनुमति

देता है। कृपया अपने परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ इन दिशानिर्देशों पर चर्चा करने के लिए कुछ समय निकालें; बस थोड़ी सी तैयारी आपको आपातकाल में सुरक्षित रहने में मदद कर सकती है। मुझे उम्मीद है कि आप इस गाइड को एक त्वरित संदर्भ उपकरण के रूप में उपलब्ध रखेंगे और अपने घर या कार्यस्थल में इन सुझावों का उपयोग करेंगे। यदि आप इमर्जन्सी प्लानिंग के बारे में अतिरिक्त जानकारी चाहते हैं, तो कृपया मैकोम्ब के इमर्जन्सी मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन्स (586) 469-5270 या mcoem@macombgov.org पर संपर्क करें।

साभार,

Mark A. Hackel

इस गाइड में दी गयी जानकारी अमेरिकी रेड क्रॉस, सेंटर फॉर डिजीस कंट्रोल(सीडीसी), फ़ेडरल इमर्जन्सी मैनेजमेंट एजेंसी (फ़ेमा), और डिपार्टमेंट ऑफ़ होमलैंड सिक्यूरिटी (डीएचएस) द्वारा प्रदान की गई विभिन्न प्रकाशनों से तैयार की गई है ताकि आपको विभिन्न आपदाओं का सामना करने में सहायता कर सकें। मैकोम्ब काउंटी, मिशिगन





**इमर्जन्सी
मैनेजमेंट योजना
का परिचय**

इमर्जन्सी मैनेजमेंट का परिचय

सार्वजनिक अधिनियम 390 के तहत 1976 में, संशोधित, मैकॉम्ब काउंटी ने एक इमर्जन्सी मैनेजमेंट कार्यक्रम स्थापित किया है, जिसमें पुरे काउंटी में आपात स्थिति और आपदाओं से पहले, दौरान और बाद में रोकथाम, तत्परता, प्रतिक्रिया, रिकवरी और शमन गतिविधियों के समन्वय की जिम्मेदारी है। इमर्जन्सी मैनेजमेंट के निदेशक को काउंटी कार्यकारी द्वारा नियुक्त किया जाता है, और मिशिगन राज्य पुलिस इमर्जन्सी मैनेजमेंट और होमलैंड सुरक्षा प्रभाग द्वारा स्थापित कार्यक्रम मानकों और आवश्यकताओं के लिए जिम्मेदार है। यह कार्यपुस्तिका हमारे समुदायों को आपदा या आपातकाल की तैयारी में मदद करने के लिए विकसित की गई थी। यह ज्ञात खतरों के बारे में जानकारी प्रदान करता है जिनका आप मैकोम्ब काउंटी में सामना कर सकते हैं। हालांकि यह सोचना मुश्किल हो सकता है कि आप जिन लोगों की परवाह करते हैं उनपर कोई विपत्ति आए, लेकिन इस जानकारी की समीक्षा करने के लिए समय निकालकर आप एक इमर्जन्सी स्थिति के दौरान अपने, अपने परिवार और अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए त्वरित कार्रवाई करने के लिए बेहतर तैयार होंगे।

“किसी इमर्जन्सी या आपदा की तैयारी के लिए मैकोम्ब काउंटी ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- एक इमर्जन्सी मैनेजमेंट निदेशक को मैकोम्ब काउंटी के भीतर सभी इमर्जन्सी और आपदा रोकथाम, तैयारियों, प्रतिक्रिया, वसूली और शमन गतिविधियों को समन्वित करने के लिए नियुक्त किया गया है।
- इमर्जन्सी प्लान्स, प्रोटोकॉल और दिशानिर्देशों की एक प्रणाली स्थापित की गई है जो ऑपरेशन की समग्र अवधारणाओं का

वर्णन करती है जो एक आपदा या आपातकाल के दौरान लागू की जाएगी। इनमें काउंटी के साथ-साथ स्थानीय न्यायालयों, स्कूलों, अस्पतालों और व्यवसायों की योजनाएं शामिल हैं।“

- “एक इमर्जन्सी संचालन स्टाफ जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ-साथ स्वयंसेवकों को भी शामिल किया गया है, जो किसी इमर्जन्सी घटना के दौरान किए गए कार्यों के विशेष ज्ञान के साथ पहचाने और प्रशिक्षित किए गए हैं।
- काउंटी में सभी इमर्जन्सी प्रतिक्रिया गतिविधियों और संसाधनों के समन्वय के लिए मैकोम्ब काउंटी कम्युनिकेशन्स और प्रौद्योगिकी केंद्र (COMTEC) के भीतर एक इमर्जन्सी संचालन केंद्र स्थापित किया गया है। COMTEC एक अत्याधुनिक सुविधा है जो हमारे निवासियों, व्यवसायों और पहले उत्तरदाताओं के लिए 24/7 स्थितिजन्य जागरूकता प्रदान करती है। इसमें 20' x 50' वीडियो वॉल, ट्रेफिकि माॉनटरिंग स्टेशन, डिस्पैच स्टेशन और इमर्जन्सी संचालन स्टेशन शामिल हैं।“



MACOMB COUNTY
COMTEC
Communications & Technology
Center



परिवार की तैयारी प्रश्नावली

इस गाइडबुक को पढ़ने से पहले, कृपया इमर्जन्सी तैयारियों के बारे में आपकी सोच को मापने के लिए निम्नलिखित प्रश्नावली का उत्तर दें। नीचे दिए गए सभी विषयों को इस पुस्तक में अधिक विवरण में कवर किया जाएगा, इसलिए यदि आप अधिक जानना चाहते हैं, तो अगले पृष्ठ पर पढ़ना जारी रखें।

क्या आप जानते हैं कि आपके घर और समुदाय को किन बातों से खतरा हो सकता है?

क्या आप मानते हैं कि आपका समुदाय आपात स्थितियों के लिए तैयार है?

क्या आप मानते हैं कि आपका परिवार अधिकांश आपात स्थितियों को संभालने के लिए तैयार है?

क्या आपने अपने परिवार के साथ इमर्जन्सी प्लानिंग के मुद्दों पर चर्चा की है?

क्या आपके पास फककमिली इमर्जन्सी सप्लाइज किट हैं जिसमें शामिल है:

- प्रति व्यक्ति पानी की तीन दिन की सप्लाइज (प्रति व्यक्ति एक गैलन, प्रति दिन)
- गैर-नाशवान खाद्य पदार्थों की तीन-दिन की सप्लाइज
- प्रति व्यक्ति के लिए एक अतिरिक्त कपड़े का जोड़ा
- प्रति व्यक्ति एक कंबल या स्लीपिंग बैग
- वर्तमान दवा प्रिस्क्रिप्शन के साथ प्राथमिक चिकित्सा किट (चार दिनों के लिए पर्याप्त)
- अतिरिक्त बैटरी के साथ बैटरी संचालित रेडियो और टॉर्च
- कार की चाबी का अतिरिक्त सेट
- क्रेडिट कार्ड और नकदी की एक छोटी राशि
- सैनिटेशन सप्लाइज
- पालतु जानवरों का सामान

क्या आपके घर में हर स्तर पर ऑपरेशनल स्मोक डिटेक्टर हैं?

क्या आपके पास एक चार्जड एबीसी अग्निशामक है?

क्या आपने अपने परिवार को अग्निशामक यंत्र के उचित उपयोग के लिए प्रशिक्षित किया है?

क्या आप अपने घर के उपकरणों को बंद करना जानते हैं?

घर का खतरा

“परिवार की तैयारियों में एक महत्वपूर्ण कदम आपके घर में खतरों की पहचान है। इसलिए अब जब आपने प्रश्नावली ले ली है, तो कृपया एक घर के खतरों की जांच भी कर ले।”

नीचे दी गई चेकलिस्ट में कई ऐसे क्षेत्र शामिल हैं जो खतरों को प्रस्तुत कर सकते हैं- और इसमें ऐसी कोई भी चीज शामिल हो सकती है जो हिल सकती है, टूट सकती है, गिर सकती है या जल सकती है। इन क्षेत्रों में आपके वर्तमान दृष्टिकोण के आधार पर प्रत्येक श्रेणी में हाँ या नहीं में उत्तर दें। उदाहरण के लिए, रसोई अनुभाग के तहत, आपसे पूछा जाता है कि क्या आप खाना बनाते समय स्नग-फिटिंग के कपड़े पहनते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो हाँ पर चेक करें और अगर नहीं करते हैं तो नहीं पर चेक करें। एक बार जब आप सभी प्रश्नों का उत्तर देकर जांच पूरी कर लेते हैं, तो आप गाइडबुक पढ़ना जारी रख सकते हैं और फिर अपने घर के भीतर सभी खतरों को कम करने या समाप्त करने के लिए एक योजना बना सकते हैं। आपको केवल दूरदर्शिता, कल्पना और सामान्य ज्ञान की आवश्यकता होगी।

रसोई

हाँ नहीं

- खाना बनाते समय स्नग-फिटिंग वाले कपड़े पहनें
- पकाए जा रहे खाने को अकेला ना छोड़ें
- खाना बनाते समय पैन को अंदर की तरफ रखें
- आग लगने की स्थिति में पास में पैन का ढक्कन रखें
- खाना पकाने के क्षेत्रों को साफ और दहनशील वस्तुओं से दूर रखें
- तारों को झूलता हुआ ना रखें
- सुनिश्चित करें कि रसोई के सिंक के पास GFI (ग्राउंड फॉल्ट इंटरप्ट) सुसज्जित हैं
- तेज चाकू बच्चों की पहुंच से बाहर रखें

बाहर

हाँ नहीं

- घर के आसपास से सूखी वनस्पति और गंदगी साफ करें
- बारबेक्यू ग्रील का उपयोग इमारतों और वनस्पतियों से दूर करें
- बारबेक्यू ब्रिकेट्स का निपटान एक धातु के कंटेनर में करें
- ग्रामीण इमारतों के आसपास “ग्रीनबेल्ट” बनाए रखें
- मलबे को जलाने या बर्न बैरल का उपयोग करने से पहले अग्निशमन विभाग से बात करें

सभी कमरे

हाँ नहीं

- ट्रिपिंग खतरों को रोकने के लिए सुनिश्चित करें कि फर्श कवरींग (गलीचे, कालीन) ठीक से सुरक्षित हैं
- बच्चों के लिए स्ट्रैग्यूलेशन खतरों को कम करने के लिए ब्लाइंड्स और ड्रेप्स पर डूँ डोरियां को अलग रखें
- सुनिश्चित करें कि कमरों से बाहर निकलने में कोई अवरोध न हो

गेराज/एटिक/शेड

हाँ नहीं

- गैसोलीन का उपयोग केवल मोटर ईंधन के रूप में करें और इसे कभी भी घर के अंदर न रखें
- यदि आवश्यक हो तो केवल गैसोलीन की थोड़ी मात्रा एक अनुमोदित कंटेनर में रखें, और उसे लॉक कर दें
- ज्वलनशील तरल पदार्थ जैसे कि पेंट और थिनर को अपने मूल कंटेनर में रखें और जमीन के पास तथा गर्मी, चिंगारी, या ज्वाला के स्रोतों से दूर रखें।

धूम्रपान और माचिस

हाँ नहीं

- माचिस और लाइटर बच्चों की पहुंच से बाहर रखें
- बड़े, गहरे, गैर-टिप ऐशट्रे का उपयोग करें
- कभी भी सोते समय या बिस्तर पर धूम्रपान न करें
- दिन में कम से एक बार एक मेटल कैन में राख और सिगरेट बट्स का निपटान करें
- फर्नीचर के आसपास जलती हुई सिगरेट के लिए चेक करें, खासकर पार्टियों के बाद

बिजली

हाँ नहीं

- एक्सटेंशन कॉर्ड्स के उपयोग से बचें (यदि उपयोग किया जाता है, तो सही वाट क्षमता रेटिंग सुनिश्चित करें)
- बिजली के आउटलेट में गर्मी पैदा करने वाले केवल एक उपकरण को प्लग करें
- सुनिश्चित करें कि तारों को कालीनों के नीचे नहीं रखा गया है
- चेक करें कि सर्किट पर अतिरिक्त लोड नहीं हैं
- क्षतिग्रस्त तारों, प्लग, साँकेट को बदलें
- लैंप और फिक्स्चर के लिए सही वाट क्षमता वाले बल्ब का उपयोग करें
- सही एम्परेज रेटिंग के लिए फ्यूज/सर्किट ब्रेकर की जाँच करें
- बाईपास फ्यूज या सर्किट ब्रेकर को ओवरराइड न करें

कपड़े/वाँशर और ड्रायर

हाँ नहीं

- सत्यापित करें कि उपकरण जमीन पर ठीक से रखे हैं
- सुनिश्चित करें कि लिंट फिल्टर साफ और सेवा योग्य है
- वेंट नली और वेंट लाइन की जांच करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे साफ हैं और बिना बाधा के एयरफ्लो प्रदान करते हैं

अग्निशामक

हाँ नहीं

- सत्यापित करें कि एक सभी उद्देश्य अग्निशामक (क्लास एबीसी) एक सुलभ स्थान पर रखा गया है
- सुनिश्चित करें कि सभी रहने वाले इसका उपयोग करना जानते हैं
- क्या रसोई, कचरे, तहखाने और सोने के क्षेत्र में अतिरिक्त आग बुझाने वाले उपकरण रखे गए हैं?
- आँयली पोछों को सीलबंद धातु के कंटेनरों में रखें
- कभी भी अखबारों और पत्रिकाओं जैसे कंस्टिबल्स को स्टोर न करें



गर्म करने वाले उपकरण हाँ नहीं

- ○ सुनिश्चित करें फायरप्लेस आवेषण और गैस/लकड़ी स्टोव का स्थानीय कोड के साथ अनुपालन करते हैं
- ○ सालाना चिमनी का निरीक्षण और सफाई करें
- ○ राख का निपटान धातु के कंटेनरों में करें
- ○ कपड़े, साज-सामान और बिजली के तार को वाँल हीटर से कम से कम 12" और पोर्टेबल हीटर से 36" दूर रखें
- ○ भट्टी की सालाना सर्विस करें
- ○ वाँटर हीटर थर्मोस्टेट को 120 डिग्री पर सेट करें
- ○ नए या प्रतिस्थापित गैस वाँटर हीटर को फर्श से कम से कम 18" ऊपर रखें

बाथरूम हाँ नहीं

- ○ जहरीली सफाई की सप्लाइज और दवाओं को चाइल्डप्रूफ अलमारियाँ में स्टोर करें
- ○ काँच की बोतलों को प्लास्टिक के कंटेनर से बदलें
- ○ सुनिश्चित करें कि सभी आउटलेट GFI से लैस हैं

परिवार की तैयारी हाँ नहीं

- ○ दूसरी मंजिल सहित हर कमरे से दो बिना रुकावट वाले निकास की योजना बनाएं और सुनिश्चित करें कि हर कोई उन्हें जानता है
- ○ बाहर एक बैठक की जगह नामित करें
- ○ आपदा/आपातकाल के बाद परिवार की जांच के लिए राज्य से बाहर का एक संपर्क रखें
- ○ एक भागने की योजना विकसित करें और नियमित रूप से इसका अभ्यास करें
- ○ एक सुरक्षित या कैबिनेट में महत्वपूर्ण कागजात और कीमती सामान को स्टोर करें

- ○ अपने घर और उसकी सामग्री (भूकंप, बाढ़, किराएदार, आग) के लिए उचित बीमा और कवरेज बनाए रखें

स्मोक और सीओड डिटेक्टर हाँ नहीं

- ○ हर स्तर पर ठीक से इंस्टाल करें
- ○ प्रत्येक महीने के पहले मंगलवार को परीक्षण करें
- ○ हर छह महीने में बैटरी बदलें

सभी खतरे (अन्य परामर्श) हाँ नहीं

- ○ भारी, लंबे, और खड़े फर्नीचर को वाँल स्टड से बोल्ट करें
- ○ किचन और बाथरूम कैबिनेट को पॉजिटिव (सेल्फ-क्लोजिंग) लैच के साथ सुरक्षित करें
- ○ भारी और/या टूटने योग्य वस्तुओं को निचले हिस्सों पर स्टोर करें
- ○ दरार के लिए नींव की जांच करें और आवश्यकतानुसार मरम्मत करें
- ○ आइने और तस्वीरें या दीवार पर सुरक्षित रखें या उन्हें भारी तार के साथ लटकाएं, उन्हें आँय स्क्रू या टंग हैंगर से लुप करें
- ○ बर्फ हटाने वाले उपकरणों का उचित उपयोग (फावड़ा और/या स्नो ब्लोअर)
- ○ सर्दियों के मौसम (ब्रेक, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इंजन, ऑइल चेंज, लाइट्स, टायर) के लिए वाहन तैयार करना
- ○ फिसलन भरे रास्तों से बचने के लिए बर्फ और बर्फ पर चलते समय उचित जूते पहनना।
- ○ संभावित फिसलन क्षेत्रों से बर्फ और हिमपात को हटाने के लिए वाँकवे पर नमक रखें।
- ○ अपने घर में एक इमर्जन्सी आश्रय की पहचान करें

आपके परिवार की मदद करने और आपदा या आपातकाल स्थिति में क्या किया जाए यह याद रखने का ड्रिल प्रैक्टिस एक शानदार तरीका है।

आग अभ्यास

परिवार के हर सदस्य को बाहर एक मीटिंग पॉइंट पर रैली करने के लिए घर से बाहर क्राँल करना चाहिए। और उम्मीद है, आपके पास अपने स्टॉप-ड्रॉप-एंड-रोल का अभ्यास करने के लिए लॉन पर एक नरम स्थान होगा। जब आप इसका अभ्यास करें, तो सुनिश्चित करें कि आपके धुएँ और कार्बन मोनोऑक्साइड अलार्म में नई बैटरी हैं, आपके आग बुझाने वाले उपकरण चार्ज किए गए हैं, और आपके भागने के कई मार्ग खुले हैं।

आपात चिकित्सा

परिवार को "घायल" सदस्य की देखभाल करने के लिए कहिये। यदि आपके परिवार में किशोर या मध्यम आयु के सदस्य हैं, तो आप उन्हें माता-पिता पर प्राथमिक चिकित्सा का अभ्यास करने के लिए कह सकते हैं। उन्हें बताएं कि आप बुरी तरह से कटे हुए हैं और बेहोश महसूस कर रहे हैं। सुनिश्चित करें कि वे जानते हैं कि आपकी चिकित्सा सप्लाइज कहाँ स्थित हैं, और उनका उपयोग करने का अभ्यास करें। छोट्टे या अधिक संवेदनशील बच्चों के लिए, आप एक मार्कर से अपने हाथ पर लाल रेखा के साथ एक गहरे कट की नकल करके ड्रिल को यथार्थवादी बना सकते हैं। फिर उन्हें आपको पट्टी बांधने के लिए कहें।





तैयार करने
के लिए आप क्या
कर सकते हैं

आप तैयारी करने के लिए क्या कर सकते हैं

आपके और आपके परिवार के खतरों को समझना इमर्जन्सी प्लानिंग में एक महत्वपूर्ण कदम है। निम्न सूची उन खतरों की पहचान करती है जो दक्षिणपूर्व मिशिगन में हो सकते हैं। क्योंकि हम अपने पूरे क्षेत्र में रहते हैं, काम करते हैं, स्कूल जाते हैं और खेलते हैं, हमें इस बारे में जागरूक होने की जरूरत है कि हमारे चारों तरफ क्या हो सकता है। अपने परिवार के साथ संभावित खतरों पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है ताकि आप अपने इमर्जन्सी प्लानिंग को विकसित करना शुरू कर सकें।

सर्दियों के मौसम के तूफान	तेज हवाएँ/बवंडर	आंधी/ओले
खतरनाक सामग्री हादसे	बाढ़	संरचना की आग
संरचना विफलता	सूखा	सार्वजनिक स्वास्थ्य इमर्जन्सी
अत्यधिक तापमान	नागरिक अशांति	जंगल की आग
बिजली जाना	आतंकवाद/तोड़फोड़	सक्रिय हमलावर

राष्ट्रीय तैयारी मिशन क्षेत्र

निवारण

आतंकवाद के एक आसन्न खतरे, या वास्तविक कृत्य को रोकें, या उससे बचें।

सुरक्षा

सबसे बड़े खतरों से हमारे नागरिकों, निवासियों, आगंतुकों, और संपत्ति की रक्षा करें, ताकि हमारे हितों, आकांक्षाओं और जीवन के तरीके को पनपने का मौका मिले।

शमन

भविष्य की आपदाओं के प्रभाव को कम करके जीवन और संपत्ति के नुकसान को कम करें।

प्रतिक्रिया

जान बचाने, संपत्ति और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए जल्दी से प्रतिक्रिया करें, और एक भयावह घटना के बाद बुनियादी मानव आवश्यकताओं को पूरा करें।

रिकवरी

समय पर बहाली, बुनियादी ढांचे, आवास और एक स्थायी अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण और पुनरोद्धार के साथ-साथ एक भयावह घटना से प्रभावित समुदायों के स्वास्थ्य, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पर्यावरणीय संतुलन पर ध्यान केंद्रित करते हुए रिकवर करें।



एक इमर्जन्सी सप्लाइज किट तैयार करें

आपको समय से पहले पानी, भोजन, प्राथमिक चिकित्सा सप्लाइज, कपड़े, बिस्तर, उपकरण और अन्य आवश्यक चीजें इकट्ठा करनी चाहिए और ऐसी घटना के लिए तैयार रहना चाहिए जिसमें आपको विस्तारित अवधि के लिए बिजली, गर्मी या पानी के बिना रहना पड़े। किट को छ-गैलन बाल्टी, डफेल बैग या बैकपैक्स में डाला जा सकता है।

इमर्जन्सी सप्लाइज किट में निम्नलिखित चीजों को शामिल करें:

पानी

(तीन दिन की सप्लाइज - एक गैलन/व्यक्ति/दिन)

- सील, अटूट कंटेनरों में पानी स्टोर करें (हर छह महीने में बदलें)

खाना

(प्रति व्यक्ति गैर-नाशवान भोजन की तीन से पांच दिन की सप्लाइज)

- भोजन (उच्च ऊर्जा, रेडी-टू-ईट)
- दूध/जूस (डिब्बाबंद या पाउडर)
- स्मोक्ड या सूखा मांस (जर्कि)
- मल्टीविटामिन, फाइबर, नमक
- मेटल मेस किट (खाना बनाना/खाना)
- पेपर कप, प्लेट, और प्लास्टिक के बर्तन या स्पॉर्क
- ओपनर (मैनुअल)
- कुकवेयर/बर्तन, कटलरी
- एल्यूमीनियम फौड्रल
- साबुन, तरल डिटर्जेंट, धोने वाले तरल पदार्थ, एसओएस पैड, स्प्रे बोतल
- फ्रीज़र बैग (मिश्रित आकार)

स्वच्छता

- व्यक्तिगत स्वच्छता आइटम
- प्लास्टिक कचरा बैग और टाईज़
- प्लास्टिक की बाल्टी ढक्कन के साथ
- कीटाणुनाशक स्प्रे
- टॉयलेटिस या डायपर पोंछे
- टॉयलेट पेपर

कपड़े और बिस्तर

(प्रति व्यक्ति कपड़े और जूते का एक पूरा सेट)

- मजबूत जूते या काम के जूते
- बारिश से बचाव की चीज़ें
- कंबल या स्लीपिंग बैग
- गर्म टोपी, दस्ताने, कपड़े और कपड़ों

के नीचे थर्मल

- टोपी, सनब्लॉक, धूप का चश्मा

प्राथमिक चिकित्सा किट

(एक वाटरप्रूफ कंटेनर)

- रोगाणुहीन चिपकाने वाली पट्टियाँ
- टू और घाँ साफ़ गौज़ पैड
- त्रिकोणीय पट्टियाँ
- हाइपोएलर्जिनिक चिपकाने वाला टेप
- टू और घाँ बाँध रोलर पट्टियाँ
- कैंची और चिमटी
- सुई और सुरक्षा रेजर ब्लेड
- साबुन और एंटीसेप्टिक स्प्रे
- सिक्त टॉयलेटिस
- दवा का ड्रॉपर
- नॉन-ब्रेकेबल थर्मामीटर
- लेटेक्स दस्ताने
- धूल का मास्क
- पेट्रोलियम जेली
- अलग अलग आकार के सेफ्टी पिंस
- टंग ब्लेड और वुडन एप्लीकेटर स्टिक्स
- जल शुद्धीकरण गोलिएँ

उपकरण और सप्लाइज

- अतिरिक्त बैटरी और अतिरिक्त बल्ब के साथ टॉर्च
- अतिरिक्त बैटरी के साथ बैटरी संचालित रेडियो
- एक जलरोधक कंटेनर में माचिस
- लाइटर, सिग्नल फ्लेयर, अग्निशामक
- फोल्डिंग फावड़ा
- मल्टी-टूल
- उपयोगिता के चाकू
- कागज, पेंसिल, कैंची, गोंद
- नक्षा (शहर, काउंटी, राज्य)

- पैसा (नकद और क्रेडिट)

- डक्ट टेप

विशेष आइटम

शिशुओं के लिए:

- फॉर्मूला, जूस और पाउडर दूध
- डायपर और पोंछे
- बोतलें और दवाएं

वयस्कों के लिए:

- दवाएं/इंसुलिन
- डेन्चर का सामान
- कांटेक्ट लेंस, सप्लाइज और अतिरिक्त चश्मा
- मनोरंजन - खेल, किताबें
- सेलफोन
- पालतू जानवरों के लिए:
 - खाना और पानी
 - कॉलर और पट्टा
 - वाहक/पिंजरा
 - दस्तावेज़

दस्तावेज

(एक वाटरप्रूफ कंटेनर में)

- इमर्जन्सी तैयारी मैनुअल
- महत्वपूर्ण फोन नंबर
- वसीयत, बीमा पॉलिसियां
- कॉन्ट्रैक्ट्स, डीड्स, स्टॉक और बॉन्ड
- पासपोर्ट, सोशल सिक्यूरिटी कार्ड
- प्रतिरक्षण रिकॉर्ड
- पारिवारिक रिकॉर्ड (जन्म, विवाह, मृत्यु)
- बहुमूल्य घरेलू सामानों की सूची
- वित्तीय रिकॉर्ड (बैंक खाता, क्रेडिट कार्ड खाते)
- परमिट (शिकार/मछली पकड़ने/आग)

अपने घर के लिए एक निकासी किट

आग, बाढ़ या अन्य आपात स्थिति में आपके घर की तत्काल निकासी की आवश्यकता हो सकती है। निम्नलिखित वस्तुओं को इकट्ठा किया जाना चाहिए और एक छोटे पोर्टेबल कंटेनर में रखा जाना चाहिए ताकि घर से बाहर निकलते समय इसे आसानी से साथ लेकर जा सके।

अपने घर के लिए एक निकासी किट में निम्नलिखित चीजों को शामिल करने पर विचार करें:

- दूध पानी की बोतलें
- गैरनश्वर, उच्च ऊर्जा वाले खाद्य पदार्थ (ग्रेनोला बार, कैंड नट्स, हार्ड कैंडी, ट्रेल मिक्स, पीनट बटर और क्रैकर्स)
- एक छोटी बैटरी संचालित रेडियो (एएम को प्राथमिकता दी जाती है) और अतिरिक्त बैटरी
- छोटी प्राथमिक चिकित्सा किट
- अतिरिक्त बैटरी के साथ टॉर्च
- नकदी और छुट्टे की एक छोटी राशि, और एक क्रेडिट कार्ड (छोटा वाटर प्रूफ कंटेनर)
- कार और घर की चाबियों का एक अतिरिक्त सेट
- एक पोर्टेबल, अग्निरोधक कंटेनर में महत्वपूर्ण पारिवारिक दस्तावेज़
 - सोशल सिक्यूरिटी कार्ड
 - बीमा पॉलिसियां
 - वसीयत
 - डीड
 - बचत और चेकिंग खाता संख्याएँ
 - जन्म और विवाह प्रमाण पत्र
 - घरेलू संपत्ति और कीमती सामान/संपत्ति की सूची (आपके घर की सामग्री या चित्र बेहद फायदेमंद हैं)
- चश्मे का अतिरिक्त जोड़ा
- निकासी योजना (संपर्कों की सूची, मिलने का स्थान)
- पालतु जानवरों का सामान



A DISASTER KIT FOR YOUR VEHICLE

अपने वाहन के लिए एक आपदा किट

अपनी कार को इमर्जन्सी सप्लाइज से सुसज्जित रखें। अपने गैस टैंक के स्तर की जानकारी रखें और यदि आनेवाली आपातकाल की चेतावनी प्रसारित की जा रही है, तो गैस भर लें। गैस स्टेशन आपातकाल से प्रभावित हो सकते हैं और आप इसका उपयोग करने में असमर्थ हो सकते हैं। इन सामानों को पोर्टेबल कंटेनर में स्टोर करके रखें।

अपने वाहन के लिए एक आपदा किट में निम्नलिखित वस्तुओं को शामिल करें:

- दूध पानी की बोतलें
- गैरनश्वर, उच्च ऊर्जा वाले खाद्य पदार्थ (ग्रेनोला बार, कैंड नट्स, हार्ड कैंडी, ट्रेल मिक्स, पीनट बटर और क्रैकर्स)
- अतिरिक्त बैटरी के साथ टॉर्च
- प्राथमिक चिकित्सा किट
- जंपर केबल
- टायर मरम्मत किट और पंप
- रेफ्लेक्टिव त्रिकोण और वेस्ट
- अग्निशामक
- बारिश का पोंचो
- पोर्टेबल कार चार्जर
- स्थानीय नक्शे
- मल्टी-टूल
- फ्लेर्स
- कंबल

ठंड के मौसम की स्थितियों में :

- कंबल
- स्नो स्क्रैपर/ब्रश
- फावड़ा
- गर्म कपड़े
- कैट लिटर (ट्रैक्शन)



एक इमर्जन्सी कम्युनिकेशन्स योजना बनाएं

आपके परिवार को किसी आपात स्थिति के लिए पहले से तैयार रहे तो इसका बेहतर सामना कर पाएंगी। परिवार का हर सदस्य कहा है ये जानकार आपको मन की शांति रहेगी, भले ही वह तत्काल परिवार का सदस्य हो या राज्य से बाहर आपदा से प्रभावित हो। कम्युनिकेशन्स योजना रखने से आपको अपने पूरे परिवार के साथ संपर्क बनाए रखने में मदद मिलेगी। मन की शांति प्राप्त करने में मदद करने के लिए इन सरल चरणों का पालन करें।

- शहर से बाहर का संपर्क चुनें, जहां आपके परिवार के सदस्य आपदा आने पर जांच करने के लिए कॉल कर सकते हैं।
- सुनिश्चित करें कि प्रत्येक परिवार का सदस्य इन फोन नंबरों को जानता है। एक छोटा संपर्क कार्ड बनाएं जिसे वे आसानी से संदर्भ के लिए ले जा सकते हैं।
- नियमित रूप से अपने शहर के बाहर के संपर्क को कॉल करें। उन्हें भी आपको कॉल करने के लिए कहे।
- अपने बच्चे के स्कूल में अधिकारियों के साथ इमर्जन्सी संपर्क नंबर छोड़ दें।

दूसरों की मदद करना याद रखें

आपके पड़ोस में रहने वाले बुजुर्ग या विकलांग निवासी हो सकते हैं जिन्हें आपात स्थिति के दौरान मदद की जरूरत पड़ सकती है। उन्हें अपनी कम्युनिकेशन्स सूची में शामिल करें और याद दिलाएँ की आपदाओं के दौरान आप उनकी मदद कर सकते हैं।

- उन पड़ोसियों की सूची बनाएं जो अतिरिक्त मदद का उपयोग कर सकते हैं।
- उनका फोन नंबर और पता पूछें, लेकिन सिर्फ तब जब वे आपके साथ सहज महसूस करें।
- जब कोई इमर्जन्सी पैदा हो जाए, तो उन पड़ोसियों के साथ संपर्क करें और देखें कि उनकी जरूरतों को संबोधित किया गया है।
- उन्हें अपने शहर के बाहर के संपर्क की पहचान करने में मदद करें।



जब कोई आपदा आती है, तो इमर्जन्सी सेवा के लिए हमेशा 9-1-1 डायल करें। पूछताछ करने, जानकारी लेने या गैर-इमर्जन्सी सहायता का अनुरोध करने के लिए 9-1-1 का उपयोग न करें। एक आपदा के दौरान, इमर्जन्सी डिस्पैचर को अक्सर मदद के लिए बहुत सारे कॉल्स को संभालना होता है। सुनिश्चित करें कि आपका कॉल एक इमर्जन्सी तरह का है। इससे जिन लोगों को सचमुच सहायता की जरूरत है उन्हें वो प्राप्त होगी।

यदि आपके पास ऐसे प्रश्न या चिंताएँ हैं जो एक इमर्जन्सी प्रकृति के नहीं हैं, तो अपने स्थानीय टीवी, रेडियो या प्रसारण समाचार स्टेशनों द्वारा प्रदान किए गए अपने स्थानीय सरकारी व्यवसाय के फोन नंबर या हाँटलाइन फोन नंबर पर कॉल करने का प्रयास करें।

अपने बच्चों को सिखाएं कि इमर्जन्सी कॉल कैसे करें, हमेशा केवल आपात स्थितियों के लिए 9-1-1 पर कॉल करने के महत्व पर जोर दें।



EMERGENCY PHONE NUMBERS

पुलिस	डायल करें 911
आग	डायल करें 911
एम्बुलेंस	डायल करें 911
काउंटी शेरिफ	586-469-5151
काउंटी इमर्जन्सी मैनेजमेंट	586-469-5270
काउंटी हेल्थ डिपार्टमेंट	586-469-5235
काउंटी पब्लिक वर्क्स	586-469-5325
काउंटी रोड डिपार्टमेंट	586-463-8671
मिशिगन राज्य पुलिस (रिचमंड पोस्ट)	586-727-0200
एफबीआई (डेट्राँइट ऑफिस)	313-965-2323
ऑइल/केमिकल स्पील रिस्पॉन्स सेंटर	800-424-8802
यूएस कोस्ट गार्ड इमर्जन्सी सेवाएं	800-321-4400
कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP)	800-232-5378
इमिग्रेशन और कस्टम्स डिपार्टमेंट (ICE)	313-568-6042
मिशिगन पाइजन कंट्रोल सेंटर	800-222-1222
एसई एमआई अमेरिकन रेड क्रॉस (आपदा राहत)	313-833-8816
साल्वेशन आर्मी (आपदा सेवाएं)	888-803-8858
डीटीई ऊर्जा	800-477-4747
उपभोक्ता ऊर्जा	800-477-5050

इमर्जन्सी चिकित्सा सामग्री

स्थानीय संपर्क

नाम _____
शहर _____
फ़ोन _____

क्षेत्र के बाहर संपर्क करें

नाम _____
शहर _____
फ़ोन _____

निकटतम संबंधी

नाम _____
शहर _____
फ़ोन _____

परिवार के काम की जगहों के नंबर्स

पिता _____
मां _____
अन्य _____

इमर्जन्सी टेलीफ़ोन नंबर्स

पुलिस विभाग _____
अग्निशमन विभाग _____
अस्पताल _____

परिवार के फिजिशियन

नाम _____	फ़ोन _____
नाम _____	फ़ोन _____
नाम _____	फ़ोन _____

रीयूनियन स्थान

अपने घर के पास _____
आपके घर से दूर, यदि आप वापस नहीं लौट सकते हैं _____
पता _____
फ़ोन _____
पहले प्रयास करने के लिए रूट _____

उपयोगिताएँ

बिजली _____
गैस _____
पानी _____



बेबीसीटर की जानकारी

हम अक्सर बेबीसीटर्स का उपयोग करते हैं। चाहे वे हमारे परिवार के लोग हों या समुदाय से भर्ती किए हों, हो सकता है कि वे हमारे घर की इमर्जन्सी प्लानिंग्स और संपर्कों से परिचित न हों। जब हम अपने प्रियजनों और घरों की देखभाल दूसरों को सौंपते हैं, तो यह सभी संबंधित लोगों के लिए जानना उपयुक्त होता है कि वे आपात स्थिति का सामना कैसे करें।

इस घर का पता: _____

इस घर का फोन नंबर: _____

इमर्जन्सी नंबर

पुलिस, आग या एम्बुलेंस

9-1-1 पर कॉल करें

श्रवण बाधित

586-469-5093

माता-पिता इस स्थान पर हैं:

पता: _____

फोन: _____

सेल फोन: _____

वे लगभग सुबह/दोपहर _____ तक वापस आ जाएंगे।

गृह इमर्जन्सी प्लान यहाँ स्थित है: _____

होम इमर्जन्सी किट यहाँ स्थित है: _____

अनुस्मारक:

- किसी के लिए तब तक दरवाजा न खोलें जब तक कि आप उनकी पहचान, उद्देश्य की पुष्टि न करें और यह निर्धारित करें कि वे खतरा नहीं हैं
- सभी दरवाजों और खिड़कियों को बंद रखें
- जानें कि बच्चे हर समय बाहर या अंदर कहा खेल रहे हैं
- ध्यान दें और गंभीर मौसम घोषणाओं के अनुसार प्रतिक्रिया दें

महत्वपूर्ण नोट्स: _____





बाहरी
चेतावनी
प्रणाली

आउटडोर चेतावनी प्रणाली

निम्नलिखित परिस्थितियों के लिए सायरन को सक्रिय किया जा सकता है:

- नेशनल वेदर सर्विस ने मैकोम्ब काउंटी के लिए एक विशिष्ट अवधि के लिए एक बवंडर चेतावनी जारी की है या प्रशिक्षित मौसम स्पॉटर्स ने मैकोम्ब काउंटी के नजदीक या उसके भीतर बवंडर का पता लगाया है।
- तेज़ तूफानों के साथ संभावित हवाएं ठण मील प्रति घंटे से अधिक या बवंडर की तरह नुकसान पैदा करने की क्षमता के साथ हो।
- एक खतरनाक सामग्री फैलाव जो समुदाय को प्रभावित कर सकती है और एक निकासी या आश्रय की आवश्यकता हो सकती है।

यदि आपके समुदाय में तत्काल खतरा तैयार हुआ है, तो बाहरी चेतावनी सायरन आपको सचेत कर सकते हैं। सायरन बजने पर यह मान लेना सुरक्षित नहीं है कि आप जानते हैं कि संभावित खतरा क्या है। हमेशा खतरे के प्रकार का निर्धारण करने और अपनी सुरक्षा के बारे में निर्देश प्राप्त करने के लिए तुरंत कहीं आश्रय ले और जानकारी पाने के लिए किसी भी रेडियो और समाचार प्रसारणों का उपयोग करें।

मौसम अलर्ट सिस्टम

जब हर सेकंड महत्वपूर्ण होता है तब मोबाइल उपकरणों पर व्यक्तिगत मौसम रेडियो और व्यक्तिगत मौसम के अनुप्रयोग जीवन-रक्षक सूचनाओं में मदद करते हैं। चाहे आप घर पर हो, दफ्तर में, या यात्रा करते समय, इमर्जन्सी मौसम चेतावनी प्रणाली आपको और आपके परिवार को किसी भी मौसम की आपात स्थिति के लिए तैयार रखने के लिए एक उपयोगी उपकरण है।

घर पर

अपने घर के अंदर एक मौसम रेडियो रखने से आप किसी भी मौसम की आपात स्थिति के बारे में सचेत हो सकते हैं। मौसम समाचार प्रसारण को देखना और सुनना आपके निकट अतीत, वर्तमान और भविष्य की मौसम स्थितियों का दृश्य प्रदान कर सकता है।

काम पर

यदि मौसम रेडियो रिसीवर एक विकल्प नहीं है, तो आपके मोबाइल डिवाइस पर मौसम के एप्लीकेशन किसी भी मौसम की आपात स्थिति के बारे में बताएंगे जिनका आप कार्यस्थल पर सामना कर सकते हैं और यह आपको घर जाने में मदद कर सकते हैं।





**निकासी
और
आश्रय-स्थान**

निकासी

यदि आपको अधिकारियों द्वारा आपके घर या कार्यस्थल को खाली करने के लिए कहा जाए, तो आपके पास बचने के लिए केवल मिनट हो सकते हैं और अधिसूचित होने पर आपको तुरंत घर छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। निकासी की अवधि आपातकाल पर निर्भर घंटों या दिनों तक हो सकती है, इसलिए आपको कम से कम तीन दिनों के लिए अपने और अपने परिवार की देखभाल के लिए तैयार रहना चाहिए।



यदि आपको खाली करने के लिए कहा जाए, तो कृपया इन सरल युक्तियों का पालन करें:

- अपने रेडियो या टेलीविजन को चालू करें और इमर्जन्सी अधिकारियों द्वारा सभी निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार रहें
- अपनी आपदा सप्लाइज किट लें
- अपने घर से बाहर निकलें
- अपने दरवाजे पर एक नोट पोस्ट करके दूसरों को बताएं कि आप कहां गए हैं। स्थानीय पुलिस पड़ोस में गश्त करेगी
- अधिकारियों द्वारा स्थापित यात्रा मार्गों का ही उपयोग करें
- निकासी से पहले जाने के लिए किसी मित्र या रिश्तेदार का चयन करें

यदि समय है, तो इन सहायक कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें:

- जाने से पहले सभी उपयोगिताओं को बंद कर दें (केवल अगर आप जानते हैं कि सुरक्षित रूप से कैसे करना है) सेवा की वापसी के लिए वापस लौटने पर अपनी गैस कंपनी से संपर्क करें

अपनी जगह पर आश्रय

कभी-कभी आपातकाल के दौरान आप बाहर निकलने से बेहतर जहां हैं वह रहना सुरक्षित हो सकता है। यदि आपको अधिकारियों द्वारा “शेल्टर-इन-प्लेस” के लिए कहा जाए, तो इन उपयोगी सुझावों का पालन करें:

- सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दें
- सभी पंखे, हीटिंग और एयर कंडीशनिंग सिस्टम बंद कर दें
- फायरप्लेस डैम्पर को बंद करें
- यदि आप उचित प्रक्रिया जानते हैं तो सभी विद्युत प्रणालिया बंद कर दें
- एक भयंकर तूफान के लिए, अपने तहखाने या बिना खिड़कियों के सबसे आंतरिक कमरे में जाएं
- रासायनिक खतरे में, जमीन से ऊपर का स्थान बेहतर है क्योंकि अधिकांश रसायन हवा से भारी होते हैं और तहखाने में जा सकते हैं
- अपनी बैटरी चालित रेडियो चालू करें और आगे के निर्देशों के लिए सुनें
- सुनिश्चित करें कि आप इमर्जन्सी अधिकारियों द्वारा आदेश दिए जाने पर घर खाली करने की योजना बनाते हैं





जब कोई
इमर्जन्सी
आती है

जब कोई इमर्जन्सी आती है

आपातकाल के दौरान और बाद में, शांत रहना महत्वपूर्ण है। किसी घटना के बाद भी खतरे हो सकते हैं। सुरक्षित लगने पर भी एक सुरक्षित स्थान नहीं हो सकता है। अपने स्थानीय इमर्जन्सी टीवी, रेडियो और प्रसारण स्टेशनों से जुड़े रहें और प्रशिक्षित पेशेवरों की सलाह का पालन करें। जब तक खाली करने के लिए नहीं कहा जाता है, इमर्जन्सी वाहनों के लिए सड़के खाली रखें। आपातकाल के दौरान आपकी विस्तारित अवधि के लिए भोजन, पानी और बिजली से काट दिया जा सकता है। यदि बिजली बंद है, तो खाद्य भंडार बंद हो सकते हैं और आपकी पानी की सप्लाईज काम नहीं कर सकती है। यहाँ कुछ सुझाव हैं:

पानी

यदि आपदा से आपको साफ पानी न मिले, तो आप अपने गर्म पानी के टैंक या पाइप में बर्फ के टुकड़े और पानी का उपयोग कर सकते हैं। यदि बाहर जाना सुरक्षित है, तो आप धाराओं या नदियों, वर्षा के पानी, तालाबों और भीलों, प्राकृतिक झरनों और बर्फ को उबालकर (छ मिनट के लिए), कीटाणुरहित करके पानी को शुद्ध कर सकते हैं। ब्लीच के साथ पानी को शुद्ध करने के लिए, प्रति गैलन पानी में ञण बूँदें ब्लीच का उपयोग करें। केवल नियमित घरेलू तरल ब्लीच का उपयोग करें जिसमें केवल 5.25% सोडियम हाइपोक्लोराइट होता है।

खाना

आपातकाल के दौरान और बाद में, यह महत्वपूर्ण होगा कि आप प्रत्येक दिन कम से कम एक संतुलित भोजन खाकर अपनी ताकत बनाए रखें। विटामिन, मिनरल और/या प्रोटीन सप्लीमेंट लें।


अगर आपकी बिजली चली जाती है

- शांत रहें, और अत्यधिक गर्मी या सर्दी के संपर्क में आने पर परिवार के सदस्यों या पड़ोसियों की मदद करें।
- जब तक बिजली वापस नहीं आती तब तक बैटरी के साथ टॉर्च का उपयोग करें। मोमबत्तियों का उपयोग न करें (इससे आग लग सकती है)
- कंप्यूटर, डीवीडी प्लेयर और टीवी जैसे संवेदनशील बिजली के उपकरणों को बंद करें
- बिजली बंद होने पर बिजली के प्रमुख उपकरणों को बंद कर दें। इससे बिजली बहाल होने पर पाँवर सर्ज रोकने में मदद मिलेगी
- ठंड और गर्मी को बाहर रखने के लिए रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर के दरवाजे यथासंभव बंद रखें
- अपने घर को गर्म करने के लिए स्टोव का उपयोग न करें - इससे आग या घातक गैस रिसाव हो सकता है
- वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी बरतें। यदि ट्रैफ़िक सिग्नल बंद है, तो प्रत्येक सिग्नल को स्टॉप साइन मानें - प्रत्येक चौराहे पर पूरी तरह रुकें और आगे बढ़ने से पहले देखें
- पावर आउटेज के बारे में पूछने के लिए ढ़ज़ज़ पर कॉल न करें। अपडेट के लिए समाचार रेडियो स्टेशनों को सुनें

यदि आपके पास पालतू जानवर है

अपने पालतू जानवरों के लिए एक सर्वाइवल किट बनाएं। इसमें शामिल होना चाहिए:

- पहचान काँलर और रेबीज टैग
- वाहक या पिंजरा
- पट्टा
- कोई भी दवाई (समाप्ति की तारीखों की जाँच करना सुनिश्चित करें)
- कचरे से निपटने के लिए समाचार पत्र और प्लास्टिक कचरा बैग
- कम से कम दो सप्ताह भोजन, पानी और खाने के कटोरे
- पशु चिकित्सा रिकॉर्ड (अधिकांश पशु आश्रयों में टीकाकरण के सबूत के बिना पालतू जानवरों की अनुमति नहीं है)



BE READY! FLOODS

तैयार रहें!

बाढ़ के दौरान

DURING DURING

बाढ़ की जोखिम को समझना

• अपने आस-पास बाढ़-प्रवण या भूस्खलन-प्रवण क्षेत्रों की पहचान करें।

• अपने समुदाय के चेतावनी संकेतों, निकट की रास्तों और इमर्जन्सी आश्रय स्थानों को जानें।

• अपने आस-पास बाढ़ निकासी रास्तों को जानें।

जब बिजली चली जाती है, पानी आपके घर में है, या घर खाली करने से पहले, गैस, बिजली, और पानी को बंद करें।

उन वस्तुओं को फेंक दें जिन्हें कीटाणुरहित नहीं किया जा सकता है, जैसे कि दीवार के कवर, कपड़ा, गालीचा और ड्राईवाला

बिजली वापस आने पर बिजली के झटके को रोकने के लिए उपकरणों को अनप्लग करें।

बाढ़ वाली सड़कों पर ड्राइव या पैदल न चलें। कार और लोग बह सकते हैं।

इमर्जन्सी सप्लाईज इकट्ठा करें और स्थानीय रेडियो या टीवी अपडेट का पालन करें।

मौसमका अलर्ट

नीचे बाँधें या बाहर का सामान अंदर लाएं।

स्वच्छता का अनुपालन करें



कीटाणुओं को रोकने में मदद के लिए साबुन और पानी से हाथ धोएं।



पीने, पकाने या साफ करने के लिए सुरक्षित रूप से पानी का उपयोग कैसे करें, इस पर अपने स्थानीय अधिकारियों की बात सुनें।

बाढ़ में AFTER

सुखाने के लिए पंखे, एयर कंडीशनर, शनिंग यूनिट और... डीह्यूमिडिफायर का उपयोग करें।

सफाई के लिए, रबड़ के जूते और प्लास्टिक के दस्ताने पहनें।

दीवारें, कठोर फर्श, अन्य सतहों को साबुन और पानी से साफ करें। कीटाणुरहित करने के लिए ज़रूरत पड़े तो क्लोरिन और ज़रूरत पड़े तो क्लोरिन पानी के मिश्रण का उपयोग करें।

सावधान! बाढ़ के पानी में कचरा हो सकता है।



अधिक जानकारी के लिए
<http://emergency.cdc.gov/disasters/floods/> पर जाएं

आपदा/आपातकाल से उबरना

इमर्जन्सी सूचना और निर्देशों के लिए अपने स्थानीय रेडियो या टेलीविज़न प्रसारण पर बने रहें।

पुनर्प्राप्ति चरण किसी भी आपदा/आपातकाल का सबसे अधिक समय लेने वाला पहलू हो सकता है। आपदा/आपातकाल से पहले और बाद में उचित कदम उठाने से एक त्वरित और कुशल वसूली हो सकती है। उस प्रक्रिया में सहायता करने का एक तरीका यह है कि सभी निवासियों के लिए वर्तमान और पर्याप्त संपत्ति बीमा है।

नीचे दिए गए दिशानिर्देश पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया में सहायता करेंगे।

सामान्य दिशानिर्देश

- प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया शुरू करने के लिए जितनी जल्दी हो सके अपने बीमा कंपनी से संपर्क करें।
- आपदा/आपातकाल के बाद आपके द्वारा किए गए किसी भी व्यय की प्राप्तियों के साथ एक रिकॉर्ड बनाए रखें।
- ये भविष्य के महत्वपूर्ण बीमा और आयकर दावे हैं।
- किसी भी उपयोगिता खतरों से अवगत रहें, और कभी भी खुद उपयोगिताओं को कनेक्ट/डिस्कनेक्ट करने का प्रयास न करें।
- भोजन, कपड़े या अस्थायी आवास की आवश्यकता होने पर अमेरिकन रेड क्रॉस (313) 833-8816 या साल्वेशन आर्मी (888) 803-885 से संपर्क करें।

बवंडर

- भवन में प्रवेश करते समय सावधानी बरतें, यह सुनिश्चित करें कि दीवारें, छत और छप्पर अपनी जगह पर सुरक्षित हैं।
- क्षतिग्रस्त प्राकृतिक गैस लाइनों से अवगत रहें। प्राकृतिक गैस की गंध या ध्वनि इस बात का सूचक है कि आपकी प्राकृतिक गैस लाइन को नुकसान हुआ है। यदि इनमें से कोई भी संकेत हो तो घर की खिड़कियाँ खोले दें और तुरंत बाहर जाएं। जब तक सुरक्षित नहीं है तब तक धूम्रपान, तेल, गैस लालटेन या अपने घर की रोशनी के लिए मोमबत्तियों का उपयोग न करें।
- स्पार्क्स, टूटे या फंसे तारों से सावधान रहें, बिजली क्रियाशील हो सकती है और उजागर तार लाइव हो सकते हैं। यदि क्षेत्र असुरक्षित है तो वह से निकले और सहायता के लिए कॉल करें।

आग

- सभी खाद्य पदार्थों, पेय पदार्थों और दवाओं को त्याग दें जो गर्मी, धुएं या कालिख के संपर्क में हैं।
- एक फायर फ्लूफ सेफ को तब तक न खोलें जब तक वह ठंडा न हो जाए।
- सर्दी का मौसिम
- यदि आपको बाहर जाना है, तो उचित फुटवियर के साथ बर्फ या बर्फ के रास्ते से सावधानी से चलें।
- बर्फ को फँसाते समय सावधानी बरतें, अधिक परिश्रम करने से दिल का दौरा पड़ सकता है। सुरक्षित रहने के लिए ब्रेक लें और इसे उठाने के बजाय बर्फ को धकेलें।
- शीतदंश के शुरुआती संकेतों से अवगत रहें, जिसमें आपकी चरम सीमाओं में उदासीनता और सफ़ेद फीका दिखाई देना शामिल है (जैसे उंगलियाँ, पैर की उंगलियाँ, नाक)।
- हाइपोथर्मिया के लक्षणों को जानें, जिसमें बेकाबू कंपकंपी, स्मृति हानि, असावधानता, घबराहट और थकावट शामिल हैं।
- जब आवश्यक हो तभी ड्राइव करें, और ऐसा करते समय, अकेले यात्रा करने से बचें और मुख्य सड़कों पर यात्रा करें।
- यदि आपका घर तूफान से बिजली या गर्मी खो देता है, तो आप सार्वजनिक आश्रय में आश्रय लेना चाहिए। ये आपके स्थानीय अमेरिकन रेड क्रॉस (313) 833-8816 या साल्वेशन आर्मी (888) -803-8858 से संपर्क करके पाया जा सकता है।





बाढ़

- यदि बाढ़ का पानी इमारत के चारों ओर फैल जाए तो कभी भी इमारतों में प्रवेश न करें।
- बाढ़ के पानी के संपर्क में आने वाले भोजन और पानी को त्यागें।
- नींव को और अधिक नुकसान से बचाने के लिए, धीरे-धीरे बाढ़ वाले बेसमेंट को प्रति दिन लगभग एक तिहाई पानी से पंप करें।
- क्षतिग्रस्त सेप्टिक टैंक, सेसपूल, गड्ढे और लीचिंग सिस्टम की तुरंत सर्विस करें।
- क्षतिग्रस्त सीवेज सिस्टम स्वास्थ्य संबंधी खतरे हैं और बाढ़ के प्रभाव को तेज कर सकते हैं।

खतरनाक सामग्री की घटनाएँ

- यदि खाली कर दिया जाता है, तो स्थानीय अधिकारियों के सुरक्षित होने के निर्देश तक घर वापस न आएं।
- घर पहुंचने पर, प्राकृतिक वेंटिलेशन प्रदान करने के लिए सभी खिड़कियां और दरवाजे खोल दें।
- मैकेनिकल वेंटिलेशन (बिजली के पंखे) को आजमाने की कोशिश न करें, क्योंकि एक विस्फोटक खतरा हो सकता है।
- स्थानीय अधिकारियों से पता करें कि अपनी जमीन और संपत्ति को कैसे साफ करें।
- खतरनाक खाद्य संदूषण से प्रभावित खाद्य और पानी की सप्लाईज को त्यागें।

यदि आपके पास सुरक्षा प्रथाओं के बारे में, किसी कार्यक्रम के बाद घर लौट रहे हैं, या किसी आपात स्थिति की तैयारी कैसे करें, इन सबके बारे में कोई सवाल है तो मैकॉम्ब काउंटी इमर्जन्सी मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन्स (586) 469-5270 पर कॉल करें। यदि आपके खाने और पीने के पानी की सुरक्षा से संबंधित कोई प्रश्न है, तो मैकॉम्ब काउंटी स्वास्थ्य विभाग (586) 469-5236 पर संपर्क करें।





आतंकवाद के ड संकेत

१ निगरानी

किसी की रिकॉर्डिंग या निगरानी गतिविधियों। इसमें कैमरों का उपयोग (या तो फोटो या वीडियो), नोट लेना, चित्र बनाना, नक्शों पर टिप्पणी करना, या दूरबीन या अन्य दृष्टि-वर्धक उपकरणों का उपयोग शामिल हो सकता है।

२ जानकारी निकालना

कानून प्रवर्तन और/या सैन्य संचालन, क्षमताओं, या लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करने वाले लोग या संगठन।

मेल, फ़ैक्स, टेलीफोन, या व्यक्तिगत रूप से आवेदन के प्रयास किए जा सकते हैं।

३ सुरक्षा के परीक्षण

सुरक्षा उल्लंघनों या भौतिक सुरक्षा बाधाओं या प्रक्रियाओं को भेदने के लिए प्रतिक्रिया समय को मापने का कोई प्रयास ताकत और कमजोरियों का आकलन करने के लिए।

४ आपूर्ति जमा करना

विस्फोटक, हथियार, गोला-बारूद की खरीद या चोरी करना, जिसमें सैन्य वर्दी, डिक्ल्स, फ्लाइट मैनुअल, पास या बैज (या ऐसी वस्तुओं के निर्माण के उपकरण), या कोई अन्य नियंत्रित आइटम प्राप्त करना शामिल है।

५ संदिग्ध व्यक्ति जो बाहर से हैं

जो लोग कार्यस्थल, पड़ोस, व्यापारिक प्रतिष्ठान, या कहीं और के नहीं लगते हैं। जहाज में संदिग्ध बाँडर क्रॉसिंग और स्टॉवेज़ या जहाज में कूदने वाले लोग शामिल हैं।



५ ड्राई रन/ट्रायल रन

वास्तविक आतंकवादी गतिविधि के बिना लोगों को स्थिति में रखें और योजना के अनुसार उन्हें चारों ओर ले जाएं। अपहरण की योजना बनाते समय यह विशेष रूप से सच है, लेकिन यह बम विस्फोटों से भी संबंधित हो सकता है। इस गतिविधि के एक तत्व में मार्गों को मैप करना और ट्रैफिक लाइट और प्रवाह का समय निर्धारित करना भी शामिल हो सकता है।

६ एसेट्स तैनात करना

लोग और सप्लाइज कुछ करने की स्थिति में जा रहे हैं। आतंकवादी गतिविधि होने से पहले अधिकारियों को सतर्क करने का यह एक अंतिम मौका है।

७ वित्तपोषण

बड़े नकद भुगतान, जमा या निकासी से जुड़े संदिग्ध लेनदेन आतंकवादी धन के सामान्य संकेत हैं। दान के लिए संग्रह, पैसे के लिए लालच और आपराधिक गतिविधियों के संकेत भी चेतावनी हो सकती हैं।



आतंकवादी हमले के लिए तैयार रहना

ज़ज़ सितंबर, दृण्ण को हुए हमलों के बाद से, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए आतंकवादी खतरे अधिक प्रचलित हो गए हैं। चरमपंथी समूह और व्यक्ति रासायनिक, जैविक, विस्फोटक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु हथियार प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं। मैकोम्ब काउंटी, साथ ही मिशिगन और संयुक्त राज्य अमेरिका में सार्वजनिक सुरक्षा पेशेवर हमारे देश की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं।

सभी आपात स्थिति स्थानीय स्तर पर शुरू होती है, और आतंकवाद अलग नहीं है। यह उचित है कि सभी नागरिक संभावित खतरों को पहचानें और समझें की उनकी तैयारी कैसे करें। हालांकि यह अनुमान लगाना असंभव है कि कोई घटना कैसे सामने आएगी लेकिन कुछ सरल चीजें हैं जिससे हम अपने और अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए कर सकते हैं।

रासायनिक और जैविक हमला

यह संभव है कि जनता एक रासायनिक और/या जैविक एजेंट के संपर्क में आ सकती है, या तो दुर्घटना से या जानबूझकर। रासायनिक या जैविक एजेंटों का प्रभाव हमेशा स्पष्ट नहीं होगा, इस तथ्य को देखते हुए कि कई एजेंट रंगहीन और गंधहीन हैं।

संकेतक

- सतहों पर तैलीय फिल्म की बूंदें
- क्षेत्र में मृत या मरने वाले जानवर
- अस्पष्टीकृत गंध
- उलटी के लक्षण, सांस लेने में कठिनाई, मिर्गी, चक्कर
- भुके हुए बादल निर्माण या वर्तमान मौसम से असंबंधित कोहरे, धूल के बादल; या तैरते, संभवतः रंगीन, कण

ये कदम उठाएं

- हमले के स्रोत से ऊपर की ओर बढ़ें
- यदि निकासी संभव नहीं है, तो घर के अंदर जाएं और शेल्टर-इन-प्लेस (पेज ज़ड का संदर्भ लें) शुरू करें।
- गैस मास्क, या यदि कोई भी उपलब्ध नहीं है, तो अपने मुंह और नाक को एक साफ कपड़े से ढक दें, जो एक कप पानी और बेकिंग सोडा के एक चम्मच में भिगोया गया हो।
- खुली त्वचा को भी कवर करें और सुनिश्चित करें कि जखम कवर किए गए हैं।
- यदि प्लास्टिक की थैली में कपड़े और सील को हटा दिया जाता है, तो तुरंत गर्म साबुन के पानी की मात्रा या पतला ज़ण: ज़ ब्लिच सोल्यूशन का उपयोग करके धो लें।
- रासायनिक या जैविक एजेंट के संपर्क में आने के बाद हमेशा जल्दी से जल्दी चिकित्सा की तलाश करें।

जब भी कोई रासायनिक या जैविक घटना होती है, तो स्थिति और तैयारियों और/या प्रतिक्रिया दिशानिर्देशों के अपडेट के लिए अपने स्थानीय रेडियो या टेलीविजन स्टेशनों पर बने रहें।

आतंकवादी हमले के लिए तैयार रहना

विस्फोटक हमला

आसानी से उपलब्ध जानकारी, और विस्फोट करने की आसानी के कारण; विस्फोटक उपकरण आतंकवादी हमलों का सबसे आम रूप हैं। अपने परिवेश से अवगत होना एक ऐसा अभ्यास है जो इस प्रकार की घटना होने पर सतर्क रहने में सहायता करेगा।

ये कदम उठाएं

- यदि आपको संदेह है कि कोई विस्फोटक उपकरण फटने वाला है, तो तुरंत क्षेत्र छोड़ दें।
- सुरक्षित होने पर 9-1-1 पर कॉल करें, और ऑपरेटर के साथ अपनी चिंताओं को शेयर करें।
- निर्देशों के लिए स्थानीय, राज्य और फ़ेडरल इमर्जन्सी अधिसूचना प्रणाली (टीवी, रेडियो, आदि) को सुनें।
- यदि कोई उपकरण विस्फोट करता है, तो किसी भी चोट के लिए अपने आप को और अपने आसपास के लोगों की जांच करें, और यदि सुरक्षित हो, तो उन चोटों के साथ सहायता करें।

परमाणु और रेडियोलॉजिकल हमले

परमाणु हमला एक ऐसे उपकरण का उपयोग होता है जो एक परमाणु विस्फोट करता है जो गर्मी, प्रकाश, वायु दबाव और विकिरण की तीव्र लहर पैदा करता है। एक पारंपरिक विस्फोटक उपकरण के माध्यम से, नुकसान पहुंचाने के इरादे से रेडियोलॉजिकल सामग्री का प्रसार किया जाता है। परमाणु या रेडियोलॉजिकल हमले की स्थिति में, स्थानीय, राज्य या फ़ेडरल अधिकारियों को उचित निर्देशों के लिए सुनें। परमाणु या रेडियोलॉजिकल हमले (पृष्ठ 18 का संदर्भ लें) के साथ काम करते समय आश्रय और निकासी करना प्राथमिक क्रियाएं हैं। अपने आप को विकिरण के संपर्क से बचाने के लिए तीन मुख्य अवधारणाएँ समय, दूरी और परिरक्षण हैं।

- **समय:** एक्सपोज़र के क्षेत्र में बिताए समय की मात्रा कम करना।
- **दूरी:** विकिरण के स्रोत से अपनी दूरी बढ़ाना
- **परिरक्षण:** अपने और विकिरण स्रोत के बीच एक अवरोध बनाना।

ये कदम उठाये

- निर्देशों के लिए स्थानीय, राज्य और फ़ेडरल इमर्जन्सी अधिसूचना प्रणाली (टीवी, रेडियो, आदि) को सुनें।
- इमर्जन्सी अधिसूचना निर्देश की कार्रवाई करें जिसमें आश्रय-स्थान या निकासी शामिल हो (पृष्ठ 18 का संदर्भ लें)।
- रेडियोलॉजिकल सामग्री की साँस लेने से बचने के लिए अपने मुँह और नाक को एक नम कपड़े से ढकें।
- दूषित कपड़ों को जल्द से जल्द हटा दें; उन्हें एक सील कंटेनर में रखें।
- संभव संदूषण को दूर करने के लिए धीरे से त्वचा धोएं।
- मुँह से कुछ भी अंदर ना जाने दे, उदाहरण के लिए: खाना, पीना, धूम्रपान।





**सक्रिय हमलावर
इमर्जन्सी तैयारी
योजना**

सक्रिय हमलावर के लिए तैयारी

संयुक्त राज्य में हाल की घटनाओं ने दर्शाया है कि सक्रिय हमलावर हमले कभी भी कहीं भी हो सकते हैं। अपने आप को, अपने प्रियजनों और अपने समुदाय को सुरक्षित रखने के लिए, इन घटनाओं से पहले, और बाद में इन सर्वोत्तम प्रथाओं की समीक्षा करें। अभी उचित कदम उठाने से आपको समय सीमित होने पर कार्रवाई करने में मदद मिल सकती है।

पहले की तैयारी

- यदि आपको कुछ संदिग्ध दिखाई दे तो अधिकारियों को तुरंत बताएं।
- उन स्थानों के लिए सक्रिय हमलावर योजनाओं से परिचित हो जाएं जहां आप नियमित रूप से जाते हैं (जैसे कार्यस्थल, पूजा स्थल आदि)। पूछें कि क्या आप अभ्यास या प्रशिक्षण में भाग ले सकते हैं।
- शापिंग मॉल और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं जैसी बड़ी खुली इमारतों का दौरा करते समय, पास के दो निकालों की पहचान करें। यह सामान्य अभ्यास करें; यह एक खेल में भी बदला जा सकता है।
- किसी भी वातावरण में छिपने के लिए स्थानों का नक्शा बनाने का समय निकालें। इनमें ठोस दरवाजे और ताले वाले कमरे, बिना खिड़की वाले कमरे और भारी फर्नीचर वाले कमरे शामिल हो सकते हैं।
- सक्रिय हमलावर और प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण के लिए साइन अप करें।

दौरान

- **भागें** - घटना से दूर हो जाना आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपने किसी भी सामान को इकट्ठा करने के लिए मत रुकिए, और अगर ऐसा करने में सक्षम है, तो अपने रास्ते से दूसरों को भी चेतावनी दें। सुरक्षित होने पर अधिकारियों को सचेत करें।
- **छिपें** - यदि भागने का कोई तरीका नहीं है, तो छिपने के लिए एक सुरक्षित स्थान ढूँढ़ें। हमलावर की दृष्टि से बाहर रहें और ठोस दरवाजे और ताले वाला, बिना खिड़की वाला, और भारी फर्नीचर वाला कमरा ढूँढ़ें। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को साइलेंट करें और शांत तरह से अधिकारियों को सूचित करें; इसमें एक दरवाजा/खिड़की से बाहर टेक्स्ट या साइनेज शामिल हो सकते हैं। जब तक अधिकारी आपको सभी सिग्नल नहीं देते तब तक किसी के लिए दरवाजा न खोलें।
- **लड़ें** - जब आवश्यक हो और बेहद खतरा हो, तो अपना बचाव करें। शूटर को रोकने के लिए आक्रामक और त्वरित कार्रवाई करना सबसे अच्छा तरीका है। कुर्सियों, आग बुझाने की मशीन या किताबों जैसे हथियारों से शूटर पर घात लगाकर आक्रमण करना, शूटर को विचलित और बाधित कर सकती है।

बाद में

- अपने हाथों को दृष्टि में और खाली रखें।
- कानून प्रवर्तन का मुख्य कार्य खतरे को खत्म करना है; वे सहायता करने के लिए रुक नहीं सकते।
- सभी कानून प्रवर्तन निर्देशों का पालन करें।
- इस दर्दनाक घटना से उभरने में सहायता के लिए आप और आपके परिवार के लिए पेशेवर मदद पर विचार करें।





काँलिंग

9-1-1

CALL 9-1-1

9-1-1 पर कॉल करना किसी भी आपात या आपदा के अधिकारियों को सूचित करने का सबसे कारगर तरीका है।

टेक्स्ट 9-1-1

टेक्स्ट-टू-9-1-1 आपके मोबाइल फोन या डिवाइस से इमर्जन्सी कॉल करने वालों तक पहुंचने के लिए एक टेक्स्ट संदेश भेजने की क्षमता है। हालाँकि, क्योंकि टेक्स्ट-टू-9-1-1 फ़िलहाल केवल कुछ खास जगहों पर उपलब्ध है, इसलिए आपको जब भी संभव हो आपात स्थिति के दौरान हमेशा 9-1-1 पर संपर्क करने के लिए वाईस कॉल करना चाहिए।

SMART 9-1-1

Smart911 नागरिकों को अतिरिक्त विवरण प्रदान करने की अनुमति देता है जिनकी आवश्यकता आपात स्थिति के दौरान सहायता के लिए 9-1-1 कॉल करने वालों को हो सकती है। इन चीजों में शामिल हो सकते हैं: व्यक्ति और घरेलू जानकारी, चिकित्सा जानकारी, पता और स्थान की जानकारी और दूसरा कुछ जो आप चाहते हैं कि बचावकर्मी को बताना चाह सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए [www=smart911=com](http://www.smart911.com) पर जाएं

SMART911 के माध्यम से उपलब्ध:

सुरक्षा प्रोफ़ाइल

9-1-1 के लिए अतिरिक्त जानकारी प्रदान करें ताकि वे किसी आपात स्थिति में आपकी तेजी से मदद कर सकें।

अलर्ट और सूचनाएं

अपने समुदाय में मौसम, यातायात और अन्य आपात स्थितियों से अवगत रहें।

व्यवहार्य आवश्यकताएँ

इमर्जन्सी मैनेजर को सचेत करें कि आपदा आने पर आपको विशेष सहायता की आवश्यकता होती है।





Emergency
Management

इस कार्यपुस्तिका को पढ़ने के लिए धन्यवाद

यदि आपके कोई और प्रश्न हैं, तो कृपया 586-469-5270 पर मैकोम्ब काउंटी इमर्जन्सी मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन्स से संपर्क करें या mcoem.MacombGov.org पर जाएं।



Emergency
Management

इमर्जन्सी मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन्स • (586) 469-5270 • mcoem.macombgov.org